

इजराइल : फिर से नेतन्याहू की सरकार

By : Editor Published On : 15 May, 2020 04:00 AM IST



जेरूसलम । इजराइल के इतिहास का सबसे लंबे वक्त तक चला राजनीतिक डेडलॉक गुरुवार को खत्म हो गया । प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को नई सरकार का गठन कर लिया । वे नवंबर, 2021 तक प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे । इसके बाद गठबंधन के साथी ब्लू एंड वाइट पार्टी चेरमैन बेनी गांट्स प्रधानमंत्री बनेंगे ।

केयरटेकर सरकार 500 से भी ज्यादा दिन चली । तीन बार आम चुनाव हुए । लेकिन, साफ नतीजे नहीं निकले । अब नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि उन्होंने सरकार बनाने में सफलता हासिल कर ली है ।

राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन और गांट्स को पत्र लिखकर नेतन्याहू ने यह जानकारी दी । गठबंधन के समझौते के मुताबिक, नई सरकार में 18 महीने बाद नेतन्याहू की जगह गांट्स प्रधानमंत्री बनेंगे । रात 10:00 बजे सरकार के 32 मंत्रियों ने शपथ ली । छह महीने बाद चार और मंत्री इसमें जुड़ जाएंगे । 14 नवंबर, 2021 तक गांट्स पीएम नहीं बनते हैं तो वह रक्षामंत्री के पद पर रहेंगे ।

बता दें कि नेतन्याहू ने सबसे लंबे समय तक इजराइल के पीएम रहने का डेविड बेन गुरियन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है । साथ ही उन्होंने अपने धुर विरोधी गांट्स को भी अपने साथ शामिल कर लिया ।

भारत से अच्छे रिश्ते

नेतन्याहू के भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं । भारत के लिए नेतन्याहू सरकार का गठन काफी अहम है, क्योंकि दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि और सिंचाई जैसे क्षेत्रों में बड़ा योगदान रहा है । उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी व्यक्तिगत रूप से अच्छे रिश्ते हैं □ PLC.

URL : <https://www.internationalnewsandviews.com/इजराइल-फिर-से-नेतन्याहू/>

Committed to truth and impartiality

Copyright © 2009 - 2019 International News and Views Corporation. All rights reserved.

www.internationalnewsandviews.com